



Sri Bala Khadgamala Stotram

॥ श्रीबाला खड्गमाला स्तोत्रम् ॥

The following is a rare prose hymn on **Bala Tripura Sundari** titled **Sri Bala Khadgamala Stotram**. The hymn prays Sri Bala Tripura Sundari embodying different celestial forms.

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः नमः - बाला त्रिपुर सुन्दर्यै - हृदयदेवी शिरोदेवी शिखादेवी कवचदेवी नेत्रदेवी अस्त्रदेवी - दिव्यौघाख्य गुरु रूपिणी प्रकाशानन्दमयी परमेशानन्दमयी परशिवानन्दमयी कामेश्वरानन्दमयी मोक्षानन्दमयी कमानन्दमयी अमृतानन्दमयी - सिद्धौघाख्य गुरु रूपिणी ईशानमयी तत्पुरुषमयी अघोरमयी वामदेवमयी सद्योजातमयी - मानवौघाख्य गुरु रूपिणी - गगनानन्दमयी विश्वानन्दमयी विमलानन्दमयी मदनानन्दमयी आत्मानन्दमयी प्रियानन्दमयी - गुरु चतुष्टय रूपिणी - गुरुमयी - परम गुरुमयी - परात्पर गुरुमयी - परमेष्टि गुरुमयी - सर्वज्ञे नित्य तृप्ते अनादिबोधे स्वतन्त्रे नित्यमलुप्ते - रतिमयी प्रीतिमयी मनोभवामयी - सर्व संक्षोभण बाणमयी - सर्व विद्रावण बाणमयी - सर्वाकर्षण बाणमयी - वशीकरण बाणमयी - उन्मादन बाणमयी - काममयी मन्मथमयी कन्दर्पमयी मकरध्वजमयी मनोभवमयी - सुभगामयी भगामयी भगसर्पिणीमयी भगमालामयी - अनङ्गमयी - अनङ्ग कुसुमामयी - अनङ्ग मेखलामयी - अनङ्ग मदनामयी - ब्राह्मीमयी माहेश्वरीमयी कौमारीमयी वैष्णवीमयी वाराहीमयी इन्द्राणीमयी चामुण्डामयी महालक्ष्मीमयी - असिताङ्गमयी रुरुमयी चण्डमयी क्रोधमयी उन्मत्तमयी कपालमयी भीषणमयी संहारमयी - कामरूप पीठमयी - मलय पीठमयी - कुलनाग गिरि पीठमयी - कुलान्तक पीठमयी - चौहार पीठमयी - जालन्धर पीठमयी - उड्यान पीठमयी - देवीकोट पीठमयी - हेतुकमयी त्रिपुरान्तकमयी वेतालमयी अग्नि जिह्वामयी कालान्तकमयी कपालमयी एकपादमयी भीमरूपमयी मलयमयी हाटकेश्वरमयी - इन्द्रमयी अग्निमयी यममयी निरृतमयी वरुणमयी वायुमयी कुबेरमयी ईशानमयी ब्रह्ममयी अनन्तमयी - वज्रमयी शक्तिमयी दण्डमयी खड्गमयी पाशमयी अङ्कुशमयी गदामयी त्रिशूलमयी पद्ममयी चक्रमयी - श्री श्री बाला त्रिपुर सुन्दरी सर्वानन्दमयी नमस्ते नमस्ते नमस्ते स्वाहा सौः क्लीं ऐं ॥

॥ इति श्री बाला खड्गमाला स्तोत्रम् सम्पूर्णम् ॥